



सत्यमेव जयते



विश्व नारियल
दिवस और
पुरस्कार
वितरण

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव



नारियल विकास बोर्ड

आपकी गरिमामयी उपस्थिति का सादर निवेदन करते हैं

विश्व नारियल दिवस समारोह और
राष्ट्रीय पुरस्कार एवं
निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार
वितरण

2 सितंबर 2022 को

होटल ली मेरिडियन, कोची में
प्रातः 10.00 बजे

“खुशहाल
भविष्य और
जीवन के लिए
नारियल की
खेती करें”

नारियल विकास बोर्ड

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)

Coconut Development Board

[MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE,
GOVERNMENT OF INDIA]

कार्यक्रम - होटल ली मेरिडियन, कोची

2 सितंबर 2022

प्रातः 9.00 - 10.00 बजे
प्रातः 10.00 - 10.10 बजे

पंजीकरण
नारियल विकास बोर्ड राज्य केंद्र का रिबन काटकर
लोकार्पण एवं दीप प्रज्वलन वेब लिंक के ज़रिए

श्री नरेंद्र सिंह तोमर

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार
के करकमलों द्वारा

स्वागत भाषण

प्रातः 10.10 - 10.20 बजे

डा.एन.विजयलक्ष्मी भा.प्र.से.
संयुक्त सचिव(नीति एवं विपणन) और अध्यक्ष, नारियल विकास बोर्ड,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

प्रातः 10.20 - 11.00 बजे

विश्व नारियल दिवस समारोह के सिलसिले में उद्घाटन भाषण और
नारियल विकास बोर्ड के पुरस्कारों की घोषणा वेबलिंक के ज़रिए

श्री नरेंद्र सिंह तोमर

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार

सम्माननीय अतिथियों द्वारा भाषण

प्रातः 11.00 - 11.10 बजे

श्री के.बाबु
माननीय विधायक, तृप्पूणित्तुरा

प्रातः 11.10 - 11.20 बजे

श्री हैबी ईडन
माननीय सांसद, एरणाकुलम

प्रातः 11.20 - 11.30 बजे

डा.जेल्फिना सी एलव
कार्यकारी निदेशक, इंटरनेशनल कोकनट कम्प्यूनिटी, इंडोनेशिया

प्रातः 11.30 - 11.40 बजे

श्री मनोज आहूजा भा.प्र.से
सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार

मुख्य अतिथि द्वारा भाषण और राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण

प्रातः 11.40 - अप. 12.20 बजे

श्री कैलाश चौधरी

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
भारत सरकार

समुपस्थिति

श्री के. नारायणन मास्टर

उपाध्यक्ष, नाविबो
श्री एंटणी आशानपरंबिल

अध्यक्ष, मरट्टु नगरपालिका, केरल

श्री सिबी सेवियर

काउंसिलर, मरट्टु नगरपालिका, केरल

धुन्धुवाव ज्ञापन

अप. 12.20 - 12.30 बजे

मुख्य नारियल विकास अधिकारी, नाविबो



नारियल विकास बोर्ड

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार), केरा भवन, कोची - 682 011, भारत

COCONUT DEVELOPMENT BOARD

(Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India)
Kera Bhavan, SRV Road, Kochi - 682 011, India

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 25.08.2022

नारियल विकास बोर्ड 2 सितंबर 2022 को विश्व नारियल दिवस समारोह 2022 और पुरस्कार वितरण आयोजित कर रहा है

नारियल विकास बोर्ड 2 सितंबर 2022 को विश्व नारियल दिवस समारोह आयोजित कर रहा है। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वर्ष के विश्व नारियल दिवस समारोह का उद्घाटन जूनागढ़, गुजरात में करेंगे और वर्चुअल मोड में किसानों को संबोधित करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री जूनागढ़, गुजरात में बोर्ड के राज्य केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे और बोर्ड के राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा करेंगे। विश्व नारियल दिवस 2022 का विषय है "खुशहाल भविष्य और जीवन के लिए नारियल की खेती करें"।

श्री कैलाश चौधरी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ली मेरिडियन, कोची में विश्व नारियल दिवस के सिलसिले में संपन्न कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और पुरस्कारों का वितरण करेंगे।

भारत में हर वर्ष नारियल विकास बोर्ड के तत्वावधान में विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष संयोगवश विश्व नारियल दिवस के अवसर पर भारत सरकार और इंटरनेशनल कोकनट कम्युनिटी द्वारा संयुक्त रूप से 2-4 सितंबर तक होटल ली मेरिडियन, कोची, केरल में अच्छी कृषि पद्धतियां विषयक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर बोर्ड के राष्ट्रीय पुरस्कारों और निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा। जूनागढ़ के कार्यक्रम में तकरीबन 600 किसान भाग लेंगे और कोची में देशभर के 500 किसान और सभी नारियल उत्पादक राज्यों के कृषि/बागवानी विभाग एवं कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ पदाधिकारी भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में सात प्रमुख नारियल उत्पादक देशों से विशेषज्ञ भाग लेंगे।

एशियाई एवं पैसफिक क्षेत्र के सभी नारियल उत्पादक देश इंटरनेशनल कोकनट कम्युनिटी(आई सी सी) के स्थापना दिवस याने 2 सितंबर को हर वर्ष विश्व नारियल दिवस मनाते हैं। आई सी सी एक अंतर शासकीय संगठन है। नारियल दिवस मनाने का उद्देश्य नारियल के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसकी अहमियत उजागर करना तथा इस फसल की ओर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना है।

- प्रचार अधिकारी